

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 12—मार्च 18, 2016 (फाल्गुन 22, 1937)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 12—MARCH 18, 2016 (PHALGUNA 22, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली—110003, दिनांक 18 फरवरी 2016

सं. ओ.दो. 6510/2016—कार्मिक.डी.ए.—4—सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री गोपाल कुमार, उप कमाण्डेन्ट (इरला—6510), 222 बटालियन, केरिपुबल, नैमेड, बीजापुर (छत्तीसगढ़) ने दिनांक 10/02/2016 (अपराह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 10/02/2016 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

ए.वी. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ-दो-5892/2016-कार्मिक.डी.ए.-4-— खेद सहित अधिसूचित किया जाता है कि 51 बटालियन, केरिपुबल, हैल्लो माजरा, चण्डीगढ़ के श्री वीरेन्द्र कुमार, उप कमान्डेन्ट (ईरला : 5892) का दिनांक 27/01/2016 को लगभग 1005 बजे दिल का दौरा पड़ने के कारण देहावसान हुआ। तदनुसार, अधिकारी को इस बल की नफरी से दिनांक 27/01/2016 (अपराहन) से निकाला जाता है।

ए.वी. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 25 फरवरी 2016

सं. ओ-दो-4878/2016-कार्मिक.डी.ए.-3-— खेद सहित अधिसूचित किया जाता है कि कमाण्डेन्ट 232 (माहिना) वाहिनी, केरिपुबल, अजमेर के श्री जितेन्द्र सिंह राठौड़, द्वितीय-कमान-अधिकारी (ईरला : 4878) स्वयं की Swift कार से अजमेर से जयपुर जाते समय वाहन दुर्घटना (एन.एच-8) में दिनांक 28.01.2016 को तकरीबन 1345 बजे मृत्यु हो गई है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 28.01.2016 (अपराहन) से निकाला जाता है।

ए.वी. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 18 फरवरी 2016

सं. ई-38013/01/अ.सू. /रा.प.अ./2016/कार्मिक.1/99-—राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक को पीबी.-2 रुपये 9300-34,800 (+) ग्रेड वेतन रुपये 4,600/-के वेतनमान में केओसुब में अनुभाग अधिकारी के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं:-

अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में पद ग्रहण की तिथि
छोटे लाल	प्रशासन शाखा (पुस्तकालय), बल मुख्यालय नई दिल्ली	15.02.2016 (पूर्वाहन)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 24 फरवरी 2016

सं. ई-16015/राफैटैस/2011/कार्मिक-2/2016/312-—प्रतिनियुक्ति विभाग से मूल विभाग में प्रत्यावर्तन होने पर केओसुब के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से केओसुब की नफरी में लिया गया है :-

अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमति	पद	प्रतिनियुक्ति विभाग का नाम	केओसुब की नफरी में लिए जाने की तारीख	केओसुब में पदभार ग्रहण करने की तारीख व इकाई का नाम
डॉ० के० सी० सामंतरे	उप महानिरीक्षक	राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान, भुवनेश्वर	14/01/2016 (पूर्वाहन)	27/01/2016 (पूर्वाहन) केओसुब इकाई ओएनजीसी नजीरा

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 5 जनवरी 2016

सं. प्रशा.1/का.आ.सं.-288—महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली निम्नलिखित कर्मचारियों को वेतन बैंड-2, (₹ 9300-34800) जिसमें ₹ 4800 का ग्रेड वेतन देय है, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 14.12.2015 (पूर्वा.) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	नाम	कर्मचारी कोड संख्या
1.	श्री राकेश गोयल	DLNDV4052002
2.	श्री अरविन्द अरोड़ा	DLNDV4052048

विजय कोठारी
निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 3 फरवरी 2016

सं. प्रशा.1/का.आ.सं.-325—महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली, इस कार्यालय के निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों को वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर वेतन बैंड-3 (₹ 15600-39100) जिसमें ₹ 5400 का ग्रेड वेतन देय है, दिनांक 01.01.2016 (पूर्वा.) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम	कर्मचारी कोड सं.
1	श्री ब्रह्म चन्द	DLNDV4051238
2	श्रीमती परविन्दर दत्ता	DLNDV4051197

विजय कोठारी
निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 18 फरवरी 2016

सं. प्रशा.1/का.आ.सं.-340—महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली, इस कार्यालय के श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट लेखापरीक्षा अधिकारी (कर्मचारी कोड सं. DLNDV4051237), को वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर वेतन बैंड-3 (₹ 15600-39100) जिसमें ₹ 5400 का ग्रेड वेतन देय है, दिनांक 05.02.2016 (पूर्वा.) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

विजय कोठारी
निदेशक (प्रशासन)

सं. प्रशा.1/का.आ.सं.-341—महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली, इस कार्यालय के श्री संजीव कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (कर्मचारी कोड सं. DLNDV4051028) को लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर वेतन बैंड-2 (₹ 9300-34800) जिसमें ₹ 5400 का ग्रेड वेतन देय है, दिनांक 01.02.2016 (पूर्वा.) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

विजय कोठारी
निदेशक (प्रशासन)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 25 फरवरी 2016

सं.-ए-12025/2-सहा. रसा./डीआर/नियुक्ति/2014-19बी—महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण निम्नलिखित उम्मीदवारों को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक रसायनज्ञ के पद पर ग्रेड पे रु. 4,800/- के सहित पे बैंड-2 के वेतनमान

रु. 9,300 — 34,800 में, प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित तिथि से प्रभावी आगामी आदेशों तक, अस्थायी हैसियत पर सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (डॉ. / श्री / श्रीमती / कुमारी)	सहायक रसायनज्ञ के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि
1.	गरिमा कुमारी	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
2.	सिबाश्री कर्मकार	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
3.	कुमार रॉबिन्स	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
4.	अनिल कुमार	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
5.	सुदीप मण्डल	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
6.	लिंगराजु मुदिमीची	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
7.	अरुणवा पाल	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
8.	निर्मला मौर्या	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
9.	अमित पाण्डेय	25.05.2015 (पूर्वाह्न)
10.	एस चन्द्र शेकर	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
11.	सुभाजित साहा	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
12.	प्राप्ति ध्यावला	13.06.2015 (पूर्वाह्न)
13.	विकास अरोरा	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
14.	मानिनी मुखर्जी	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
15.	अरविंद कुमार	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
16.	मनीष कुमार यादव	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
17.	जितेंद्र सिंह	16.05.2015 (पूर्वाह्न)
18.	अभिमन्यु कुमार	15.06.2015 (पूर्वाह्न)
19.	राजू डी	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
20.	विनोद कुमार	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
21.	हरिदास मण्डल	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
22.	अरुण कुमार	15.05.2015 (पूर्वाह्न)
23.	विस्लवत संतोष कुमार	28.09.2015 (पूर्वाह्न)

टी. आर. दास
सहायक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
फरीदाबाद—121001, दिनांक 26 फरवरी 2016

सं. ए—19025/55/2015—प्र०।—इस निदेशालय की दिनांक 21.01.2016 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में “दिनांक 21 जनवरी, 2016(पूर्वाह्न) से” शब्दों को “दिनांक 12 जनवरी, 2016(अपराह्न) से” पढ़ा जाए।

एल. अनंत
अवर सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई—400085, दिनांक 23 फरवरी 2016

सं. पीडी/93/अधि/स्थापना/I&II/30436—निम्नलिखित कैडर तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम -3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम -4 पर दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम -5 पर दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है :—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	त्याग किया गया पद का कार्यभार	पद त्याग करने की तारीख	घटना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्रीमती अंजी जोस	वरिष्ठ निजी सचिव	31.01.2016 (अप)	अधिवर्षिता

आर. पी. राजू
नियंत्रक

सं. पीडी/93/अधि/स्थापना/I&II/30436—निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम -3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम -4 पर दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम -5 पर दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	त्याग किया गया पद का कार्यभार	पदत्याग करने की तारीख	घटना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	डॉ (श्रीमती) मंजुला माथुर	वै. अ./एफ	31/01/2016 (अप)	अधिवर्षिता
2	श्री राम चरन शर्मा	प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं निदेशक	31/01/2016 (अप)	अधिवर्षिता
3	श्री यश प्रधान	वै. अ./एच	31/01/2016 (अप)	अधिवर्षिता

आर. पी. राजू
नियंत्रक

मुंबई, दिनांक 16 फरवरी 2016

सं. पीडी/2(1)(i)/2014-भर्ती-IV/2093—राष्ट्रपति, डॉ राहुल विठ्ठलराव परघणे, को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 'डी' के पद पर रु. 15600—39100 + 6600 (ग्रेड पे) + एनपीए के वेतनमान में 21 दिसम्बर, 2015 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 23 फरवरी 2016

सं. पीडी/2(3)(iv)/2014-भर्ती-IV/2326—राष्ट्रपति, डॉ (श्रीमती) प्राची रामकृष्ण गड्डम को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 'डी' के पद पर रु. 15600—39100 + 6600 (ग्रेड पे) + एनपीए के वेतनमान में 5 जनवरी, 2016 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 24 फरवरी 2016

सं. पीडी/6(3)/2015-भर्ती-III/2016/2387—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री गिरीश नामदेव छत्रे, सहायक लेखाकार, भापअ केंद्र मुंबई को दिनांक 27.01.2016 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 9300—34800 के वेतन बैंड—2

तथा ग्रेड वेतन रु. 4800/— में इसी अनुसंधान केंद्र में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/6(3)/2015-भर्ती-III/2016/2388—मुख्य कार्यकारी, नाभिकीय पुनश्चक्रण बोर्ड, कुमारी शीतल लक्ष्मण पाटील, सहायक लेखाकार, ना. पु. बोर्ड, मुंबई, को दिनांक 27.01.2016 (पूर्वाहन) से, आगामी आदेशों तक रु. 9300-34800 के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4800/— में ना. पु. बोर्ड, मुंबई में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

एम. व्ही. श्रीधरन
उप स्थापना अधिकारी

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र सुविधाएं

विशाखापट्टनम— 530012, दिनांक 23 फरवरी 2016

सं. जीएफ/02/पीडी/बीएआरसी(वी)/2344—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्ग 'क' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से मूल रूप से नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम सर्वश्री	आरंभिक नियुक्ति के ग्रेड/पद का नाम	स्थायीकरण की तारीख
1	कृष्णा चैतन्या पी.जी	तकनीकी अधिकारी/डी	09.04.2013
2	एकांश मिश्रा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.08.2014
3	अर्जुन जगदीश राव	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.08.2014
4	शिवा कुंचरपु	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.08.2014
5	अखंडम वेंकट सीताराम शर्मा	तकनीकी अधिकारी/डी	31.08.2014
6	ललित पटोडा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.08.2014
7	गोपाल शर्मा पी.वी.एच.वी	तकनीकी अधिकारी/डी	18.09.2014
8	मनोज कुमार झा	तकनीकी अधिकारी/डी	02.07.2014
9	प्रभाकर राव बासवा	तकनीकी अधिकारी/ई	17.09.2014
10	तिरुमल शेट्टी श्रीहरि	तकनीकी अधिकारी/ई	08.08.2014
11	सुरेंद्र कुमार शर्मा	इंजीनियर — एससी	01.09.2004
12	रोहित शुक्ला	वैज्ञानिक — एससी	10.09.2003
13	पार्था बॅनर्जी	इंजीनियर —एससी	10.09.2003
14	पंकज देब	इंजीनियर —एससी	04.05.2007
15	बलगा रामबाबू	तकनीकी अधिकारी/डी	02.04.2013

सी.वी.एल.एन.रवि कुमार
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 11 फरवरी 2016

सं. 6(2719)/2016-प्रशा./2003—राष्ट्रपति, श्री अभय कुमार, आईआरएस (सीएण्डसीई : 2004) को 01 फरवरी, 2016 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिये अथवा भावी आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो के लिए, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में उप सचिव (वित्त) पीबी-3 (रु 15,600-39,100/—) और ग्रेड वेतन रु 7,600/—, के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. पी. एस. पिल्लै
अवर सचिव

दिनांक 16 फरवरी 2016

सं. 6(2720)/2016—प्रशा./2302 —अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के सहायक लेखा अधिकारी (पीबी-2, रु. 9300—34800 + ग्रेड वेतन रु. 4800) श्री ए. वी. सुब्बैय्या को 03 फरवरी 2016 के पूर्वाह्न से आईआईडब्ल्यू, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में लेखा अधिकारी (पीबी-2 रु. 9300—34800 + ग्रेड वेतन रु. 5400) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. पी. एस. पिल्लै
अवर सचिव

सं. 6(2726)/2016—प्रशा./2511—सक्षम प्राधिकारी ने श्री विनोद कुमार ठकराल, आई.ए.एस. (एएम 1982), विशेष सचिव तथा वित्त सलाहकार, उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को श्री सुदर्शनम श्रीनिवासन, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) (ओआर 1980) के स्थान पर दिनांक 03 फरवरी 2016 के पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि तक या इस पद पर नियमित पदधारी की नियुक्ति या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, परमाणु ऊर्जा आयोग/अंतरिक्ष आयोग/पृथ्वी आयोग के सदस्य (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार देने पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

के. पी. एस. पिल्लै
अवर सचिव

नवी मुंबई—400703, दिनांक 20 फरवरी 2016

सं. ब्रिट/9/18/62—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड में निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को दिनांक 01 अगस्त 2015 के पूर्वाह्न से रु. 15600—39100 के वेतन बैंड तथा रु. 5400 के ग्रेड वेतन सहित वैज्ञानिक अधिकारी 'सी' के पद पर, अगले आदेशों तक, अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

क्र.स.	नाम
1.	श्री गौरव कुमार अग्रहरि
2.	श्री राम गोयल
3.	श्री मुखर शर्मा
4.	श्री साकिब
5.	श्री आदित्य शाह

पी. रामकृष्णन्
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुंबई—400094, दिनांक 18 फरवरी 2016

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)—तालचेर/2016/980—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्री आर. रंगनाथन, सहायक (पीबी- 2 रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-), इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कल्पकम, को दिनांक 30.12.2015 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड - 2 रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में भारी पानी संयंत्र (तालचेर) में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

के.एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी—III

नागर विमानन मंत्रालय

(कार्यालय महानिदेशक नागर विमानन)

नई दिल्ली—110003, दिनांक 22 जनवरी 2016

सं.ए-31013/04/2014—स्था. II—एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने पर, राष्ट्रपति वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु0 तथा ग्रेड वेतन 6600/- रु0 के वेतनमान में महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में सहायक निदेशक विमान सुरक्षा के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित

अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से मूल पद पर नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	स्थायीकरण की तारीख
1.	जसबीर सिंह लारघा	17.06.2014
2.	रूपिन्दर सिंह	24.09.2013
3.	नारायण विस्लावत	19.03.2014
4.	यशपाल	05.04.2014

गोपाल सिंह
उपनिदेशक प्रशासन

दिनांक 4 फरवरी 2016

सं.ए.39012/1/2016—स्था।।— राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28020/1/2010—स्थापना (सी) तारीख 26.12.2013 के अनुसरण में सुश्री कविता सिंह, विमान सुरक्षा अधिकारी जो महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में कार्यरत हैं, का 04.02.2016 (अपराह्न) से तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

2. सुश्री कविता सिंह, विमान सुरक्षा अधिकारी को 04 फरवरी, 2016 (अपराह्न) से उनकी ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

गोपाल सिंह
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली—110 003, दिनांक 8 फरवरी 2016

सं.ए.31013/01/2014—स्था।।—दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने पर, राष्ट्रपति सुश्री रश्मि की नियुक्ति वेतन बैंड—3, 15600—39100 रुपये तथा ग्रेड वेतन 5400/— रुपये के वेतनमान में महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में प्रचालन अधिकारी के ग्रेड में 28.05.2015 से मूल पद की क्षमता में करते हैं।

पवन मालवीय
उप निदेशक प्रशासन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार)

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले और 16 कम्पनियों के संबंध में।

जयपुर—302001, दिनांक 25 फरवरी 2016

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/5/579—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी गई हैं :—

क्र.सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
01	033709	ब्लैक पर्ल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
02	032641	श्रीजी मार्मोस्टोन प्राईवेट लिमिटेड
03	012068	ए बी प्रोफेशनल्स प्राईवेट लिमिटेड
04	046205	लोकस ट्रांसिट प्राईवेट लिमिटेड
05	037301	आर्यवृत्त बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
06	024889	जैन रिटेल प्राईवेट लिमिटेड
07	045760	पीएनएस इन्फ्रास्ट्रक्चरल इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
08	026339	ओम साई वायर एण्ड केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
09	038929	शुभ्रिया इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
10	023186	कृष्णमुरारी मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
11	039076	जीत इन्फ्रा बिल्डप्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
12	025260	सक्षम मल्टीट्रेडमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
13	007930	बालाजी प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
14	018302	दीपलक्ष्मी रियल-एस्टेट मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
15	031625	त्रिदेव प्रोपर्टी एण्ड बिल्डमेट प्राईवेट लिमिटेड
16	048669	मेनटॉक मेडिकेयर (ओपीसी) प्राईवेट लिमिटेड

इमरान ए. सिद्दीकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार—सह—उप शासकीय समापक
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बिलासपुर, दिनांक 22 फरवरी 2016

सं. आर ओ सी/560(5)/एफ टी ई/2015—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विधित्त हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है :—

क्रम सं.	कंपनी नंबर	कंपनी का नाम
1	0344	ओम भू विकास एन्ड इन्वेस्टमेंट (इंडिया) लिमिटेड
2	21779	कृष्णा गल्वानिज्ड स्टील ट्यूब्स प्रायवेट लिमिटेड
3	00030	सात्विक मिनरलस् प्रायवेट लिमिटेड
4	00029	आकांक्षा मिनरलस् प्रायवेट लिमिटेड
5	00077	जे के (डी) कापियर्स प्रायवेट लिमिटेड
6	21112	कृष्णा सिनर्जी प्रायवेट लिमिटेड
7	00191	धैर्य इन्टरप्राइजेस प्रायवेट लिमिटेड
8	01040	जगन्नाथ इन्फ्राकान प्रायवेट लिमिटेड
9	21637	दिव्य यूनिसॉफ्ट सर्विसेस (इंडिया) प्रायवेट लिमिटेड
10	20672	अग्रवाल रियलबिल्ड इंडिया प्रायवेट लिमिटेड

ह./—अपठनीय
रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज—
सह—शासकीय समापक, छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

शिलांग—793001, दिनांक 26 फरवरी 2016

सं. क0/र0/शि0/560(5)/2015/22— कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है । उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है ।

क्रमांक	सिन नम्बर	कम्पनी का नाम
1	U70109AS2007PTC008361	बजरंग ईन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
2	U70100AS2007PTC008363	महेशवरी रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड
3	U45400AS2007PTC008403	नारायण ईन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
4	U70101AS2007PTC008402	सरशवती ईन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
	U70101AS2007PTC008401	विशनू लेन्डकोन प्राइवेट लिमिटेड
	U70101AS2007PTC008400	महेशवरी लेन्डकोन प्राइवेट लिमिटेड
	U63090AS2010PTC010037	एडिशन टेक्नोलोजिजस प्राइवेट लिमिटेड
	U52399AS2014PTC011774	एभीन्जलाइन एपेरियलस प्राइवेट लिमिटेड

पी.एस.सिएम
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
शिलांग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-110003, the 18th February 2016

No. O.II.6510/2016-Pers.DA.4—Consequent on acceptance of his notice of voluntary retirement from Government service by the competent authority, Shri Gopal Kumar, Dy. Commandant (IRLA-6510) of 222 Bn, CRPF, Nimed, Bijapur (Chhatisgarh) has relinquished his post on 10/02/2016(AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 10/02/2016(AN).

A.V. CHAUHAN
DIG(Pers) Dte

No. O.II-5892/2016-Pers-DA.4—Regret to notify that Shri Virender Kumar, Dy Comdt (IRLA-5892) of 51 Bn, CRPF, Hallo Majra, Chandigarh(UT) expired at about 1005 hours on 27/01/2016 due to cardiac arrest. Accordingly, his name stand deleted from the strength of the Force with effect from 27/01/2016(AN).

A.V. CHAUHAN
DIG(Pers) Dte

The 25th February 2016

No. O.II-4878/2016-Pers-DA-3—Regret to notify that Shri Jitendra Singh Rathore, Second-in-Command (IRLA: 4878) of 232 (M) Bn CRPF, Ajmer expired on 28/01/2016 at about 1345 hrs due to vehicle accident on NH-8 while travelling from Ajmer to Jaipur by his own swift car. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 28/01/2016 (AN).

A.V. CHAUHAN
DIG(Pers)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 18th February 2016

No.E-38013/01/NOTI./GOs/2016/PERS-1/99—The President is pleased to appoint the following Assistant on regular promotion to the rank of Section Officer in the pay Band-2 Rs.- 9300-34800 (+) Grade Pay of Rs.4,600/-in CISF with effect from the date noted against him:—

Name of Officer(Shri)	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Section Officer on regular basis
CHHOTE LAL	ADM.BRANCH (LIBRARY) FHQR.NEW DELHI	15.02.2016/FN

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 24th February 2016

No. E-16015/NIFT/2011/Pers.II/2016/312—Consequent upon repatriation from deputation, the following officer has reported at CISF HQrs, New Delhi and taken on the strength of CISF HQrs/Unit with effect from the date as shown against his name :—

Name of the Officer (Shri/Smt./Ms)	Rank	Name of the Department where officer was on deputation	Date of taken on the strength of CISF	Date of assumption of charge/Unit
Dr. K. C. Samantaray	DIG	NIFT Bhubaneswar	14.01.16 (FN)	27.01.16/FN CISF Unit ONGC Nazira

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT)

(CENTRAL EXPENDITURE)

New Delhi – 110002, the 5th January 2016

No. Admn./O.O No.288—Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi is pleased to appoint following officials to officiate as Assistant Audit Officers in the Pay Band-2 (Rs. 9300-34800/-) carrying Grade Pay of Rs. 4800/- with effect from 14.12.2015 (FN) until further orders:—

Sl. No.	Name	Emp. Code
1.	Shri Rakesh Goel	DLNDV4052002
2.	Shri Arvind Arora	DLNDV4052048

V. N. KOTHARI
Director (Admn.)

The 3rd February 2016

No. Admn./O.O No. 325—Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi hereby appoints the following Audit Officers of this office to officiate as Senior Audit Officers in the Pay Band-3 Rs. 15600-39100/- carrying Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from 01.01.2016 (F/N) until further orders:—

Sr. No.	Name	Emp. Code. No.
1.	Shri Brahm Chand	DLNDV4051238
2.	Smt. Parvinder Datta	DLNDV4051197

V. N. KOTHARI
Director (Admn.)

The 18th February 2016

No. Admn./O.O. No. 340—Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi hereby appoints Shri Bhupender Singh Bisht, Audit Officer (Emp. Code No. DLNDV4051237) of this office to officiate as Senior Audit Officer in the Pay Band-3 (Rs. 15600-39100/-) carrying Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from 05.02.2016 (F/N) until further orders.

V. N. KOTHARI
Director (Admn.)

No. Admn./O.O. No. 341—Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi hereby appoints Shri Sanjeev Kumar Assistant Audit Officer (Emp. Code No. DLNDV4051028), of this office to officiate as Audit Officer in the Pay Band-2 (Rs. 9300-34800/-) carrying Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from 01.02.2016 (F/N) until further orders.

V. N. KOTHARI
Director (Admn.)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700 016, the 25th February 2016

No. A-12025/2-Astt.Chem./DR/Apmnt./2014-19B—The Director General, Geological Survey of India is pleased to appoint the following candidates to the post of Assistant Chemist in Geological Survey of India in the Pay Scale of PB - 2:

Rs. 9,300 - 34,800 with the Grade Pay of Rs. 4,800 on temporary basis with effect from the date mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officer (Dr./Shri/Smt./Km.)	Date of joining to the post of Assistant Chemist
1.	Garima Kumari	15.05.2015 (FN)
2.	Sibasree Karmakar	15.05.2015 (FN)
3.	Kumar Robins	15.05.2015 (FN)
4.	Anil Kumar	15.05.2015 (FN)
5.	Sudip Mandal	15.05.2015 (FN)
6.	Lingaraju Mudimanchi	15.05.2015 (FN)
7.	Arunava Pal	15.05.2015 (FN)
8.	Nirmala Maurya	15.05.2015 (FN)
9.	Amit Pandey	25.05.2015 (FN)
10.	S Chandra Shekar	15.05.2015 (FN)
11.	Subhajit Saha	15.05.2015 (FN)
12.	Prapti Dhyawala	13.06.2015 (FN)
13.	Vikas Arora	15.05.2015 (FN)
14.	Manini Mukherjee	15.05.2015 (FN)
15.	Arvind Kumar	15.05.2015 (FN)
16.	Manish Kumar Yadav	15.05.2015 (FN)
17.	Jitendra Singh	16.05.2015 (FN)
18.	Abhimanyu Kumar	15.06.2015 (FN)
19.	Raju D	15.05.2015 (FN)
20.	Vinod Kumar	15.05.2015 (FN)
21.	Haridas Mandal	15.05.2015 (FN)
22.	Arun Kumar	15.05.2015 (FN)
23.	Vislavat Santosh Kumar	28.09.2015 (FN)

T. R. DAS
Asstt. Director (P&A)

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE)
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad-121001, the 26th February 2016

No. A-19025/55/2015-Adm.I—In partial modification of this Directorate's Notification of even number dated 21st January, 2016, the words “with effect from 21st January, 2016, the words “with effect from 21st January, 2016(Forenoon)” may be read as “with effect from 12th January, 2016(Afternoon)”.

L. ANANTH
Under Secy.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai – 85, the 23rd February 2016

No. 93/Notification./I&II/30436—The Cadre Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sr. No.	Name of the officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Smt. Annie Jose	Sr. PS	31/01/2016 (AN)	Superannuation

R.P. RAJU
Controller

No. 93/Notification./I&II/30436—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sr. No.	Name of the officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dr. (Smt.) Manjula Mathur	SO/F	31/01/2016 (AN)	Superannuation
2	Shri Ram Charan Sharma	DS & Director	31/01/2016 (AN)	Superannuation
3	Shri Yash Pradhan	SO/H	31/01/2016 (AN)	Superannuation

R.P. RAJU
Controller

Mumbai – 85, the 16th February 2016

No. PD/2(1)(i)/2014-R-IV/2093—President is pleased to appoint Dr. Rahul Vitthalrao Parghane as Scientific Officer (D) in the Pay of Rs. 15,600-39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay + NPA in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of 21st December, 2015 until further orders.

M. V. SREEDHARAN
Deputy Establishment Officer

The 23rd February 2016

No. PD/2(3)(iv)/2014-R-IV/2326—President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Prachi Ramkrishna Gaddam as Scientific Officer (D) in the Pay of Rs.15600-39100 + Rs. 6600 Grade Pay + NPA in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of 5th January, 2016 until further orders.

M. V. SREEDHARAN
Deputy Establishment Officer

The 24th February 2016

NO. PD/6(3)/2015-R-III/2016/2387—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Girish Namdev Chhatre, Assistant Accountant, BARC, Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs.4800/- in this Research Centre itself with effect from the forenoon of 27.01.2016 on regular basis until further orders.

M. V. SREEDHARAN
Deputy Establishment Officer

No. PD/6(3)/2015-R-III/2016/2388—Chief Executive, Nuclear Recycle Board appoints Kum. Sheetal Laxman Patil, Assistant Accountant, NRB, Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 of ₹9300-34800 + Grade Pay ₹4800/- in NRB, Mumbai itself with effect from the forenoon of 27.01.2016 on regular basis until further orders.

M. V. SREEDHARAN
Deputy Establishment Officer

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE FACILITIES

Visakhapatnam-530 012, the 23rd February 2016

No. GF/02/PD/BARC(V)/2344—The President is pleased to appoint the under-mentioned Scientific Officers/Engineers belonging to Group 'A' of the Department of Atomic Energy in a substantive capacity with effect from the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name S/Shri	Grade / Post of Initial apptt.	Date of confirmation
1.	Krishna Chaitanya P.G.	Technical Officer/D	09.04.2013
2.	Ekansh Mishra	Scientific Officer/C	01.08.2014
3.	Arjun Jagdish Rao	Scientific Officer/C	01.08.2014
4.	Shiva Kuncharapu	Scientific Officer/C	01.08.2014
5.	Akhandam Venkata Sitarama Sarma	Technical Officer/D	31.08.2014
6.	Lalit Patoda	Scientific Officer/C	01.08.2014
7.	Gopala Sarma P.V.H.V	Technical Officer/D	18.09.2014
8.	Manoj Kumar Jha	Technical Officer/D	02.07.2014
9.	Prabhakara Rao Baswa	Technical Officer/E	17.09.2014
10.	Tirumalasetty Srihari	Technical Officer/E	08.08.2014
11.	Surender Kumar Sharma	Engineer-SC	01.09.2004
12.	Rohit Shukla	Scientist-SC	10.09.2003
13.	Partha Banerjee	Engineer-SC	10.09.2003
14.	Pankaj Deb	Engineer-SC	04.05.2007
15.	Balaga Rambabu	Technical Officer/D	02.04.2013

C.V.L.N. RAVI KUMAR
Assistant Personnel Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 11th February 2016

No.6(2719)/2016-Adm/2003—The President is pleased to appoint Shri Abhay Kumar, IRS (C&CE:2004) as Deputy Secretary (Finance) in PB-3 (Rs15600-39100) with Grade Pay of Rs 7600/- in the Department of Atomic Energy, Mumbai, with effect from the forenoon of 01st February, 2016 for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

K.P.S. PILLAI
Under Secy.

The 16th February 2016

No.6(2720)/2016-Adm/2302—Additional Secretary, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri A.V Subbiah, Assistant Accounts Officer [PB-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4800], NFC, Hyderabad, as Accounts Officer [PB-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 5400], in IIW, DAE, Mumbai with effect from the forenoon of 3rd February, 2016.

K.P.S. PILLAI
Under Secy.

No. 6(2726)/2016-Adm./2511—The Competent Authority has approved entrustment of additional charge of the post of Member (Finance), Atomic Energy Commission/Space Commission/Earth Commission to Shri Vinod Kumar Thakral, IAS (AM:1982), Special Secretary and Financial Adviser, Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers vice Shri Sudarsanam Srinivasan, IAS (Retd.) (OR:1980), for a period of three months with effect from the forenoon of 3rd February 2016 or till appointment of a regular incumbent to that post or till further orders, whichever is the earliest.

K.P.S. PILLAI
Under Secy.

Navi Mumbai-400 703, the 20th February 2016

No. BRIT/9/18/62—The President is pleased to appoint following Scientific Officers as Scientific Officer 'C' in the pay band of Rs. 15600-39100 with grade pay Rs. 5400 in the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy in a temporary capacity w.e.f. the forenoon of August 01, 2015 until further orders:—

Sl. No.	Name
1.	Shri Gaurav Kumar Agrahari
2.	Shri Ram Goel
3.	Shri Mukhar Sharma
4.	Shri Saquib
5.	Shri Aaditya Shah

P. RAMAKRISHNAN
Chief Administrative Officer

HEAVY WATER BOARD

Mumbai -400 094, the 18th February 2016

No. HWB/R/1(8)-Talcher/2016/980 —Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri R. Ranganathan, Assistant (Pay Band-2 Rs. 9300-34800 + Grade Pay of Rs. 4600), Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4800/- in Heavy Water Plant (Talcher) from the forenoon of 30th December, 2015 until further orders.

K.S. PILLAI
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CIVIL AVIATION (OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION)

New Delhi -110 003, the 22nd January 2016

No. A-31013/04/2014-E.II—On successful completion of the probation period of one year, the President is pleased to appoint the following officers in the grade of Assistant Director of Air Safety, in PB-3 of Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600/- in the office of the Director General of Civil Aviation, in the substantive capacity with effect from the date mentioned against their names: —

Sl No.	Name S/Shri	Date of confirmation
1.	Jasbir Singh Larhga,	17.06.2014
2.	Rupinder Singh	24.09.2013
3.	Narayana Vislavat	19.03.2014
4.	Yashpal	05.04.2014

GOPAL SINGH
Dy. Director of Administration

The 4th February 2016

No. A-39012/01/2016-E.II. The President is pleased to accept the technical resignation of Ms. Kavita Singh, Air Safety Officer in the Office of the Director General of Civil Aviation in terms of DoPT OM No. 28020/1/2010-Estt.(C) dated 26.12.2013 with effect from 04-02-2016 (after-noon).

2. Ms. Kavita Singh, Air Safety Officers stands relieved of her duties with effect from 04th February, 2016 (Afternoon).

GOPAL SINGH
Dy. Director of Administration

New Delhi-110 003, the 8th February 2016

No. A-31013/01/2014-E.II.—On successful completion of the probation period of two years, the President is pleased to appoint Ms. Rashmi in the grade of Operations Officer, in PB-3 of Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs. 5400/- in the office of the Director General of Civil Aviation, in the substantive capacity with effect from 28.05.2015.

PAVAN MALVIYA
Deputy Director of Administration

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of companies Act 1956, and of the following Companies

Jaipur-302001, the 25th February 2016

No.ROC /JPR/560(5)/580— Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved:—

S. No.	Company No.	Company Name
1	033709	BLACK PEARL BUILDERS PRIVATE LIMITED
2	032641	SHREEJI MARMOSTONE PRIVATE LIMITED
3	012068	A B PROFESSIONALS PVT LTD
4	046205	LOCUS TRANSIT PRIVATE LIMITED
5	037301	ARYAVART BUILDTECH PRIVATE LIMITED
6	024889	JAIN RETAIL PRIVATE LIMITED
7	045760	PnS Infrareal International Private Limited
8	026339	OM SAAI WIRE AND CABLES PRIVATE LIMITED
9	038929	SHUBHRIYA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
10	023186	Krishnamurari Motors Private Limited
11	039076	JEET INFRA BUILDPROJECTS PRIVATE LIMITED
12	025260	SAKSHAM MULTITRADEMART PRIVATE LIMITED
13	007930	BALAJI PLANTATIONS PVT.LTD

S. No.	Company No.	Company Name
14	018302	DEEPLAXMI REAL-ESTATE MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
15	031625	TRIDEV PROPERTY AND BUILDMAT PRIVATE LIMITED
16	048669	MENTOK MEDICARE (OPC) PRIVATE LIMITED

IMRAN A. SIDDIQUI
Dy. Registrar of Companies
-cum- Dy. Official Liquidator
Rajasthan

In the matter of companies Act 1956, and of the following Companies

Bilaspur, the 22nd February 2016

No. ROC/560(5) FTE/2015—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved:—

S.No.	Company No.	Name of the company
1	0344	OM BHOO VIKAS & INVESTMENT (INDIA) LIMITED
2	21779	KRISHNA GALVANISED STEEL TUBES PRIVATE LIMITED
3	00030	SATVIK MINERALS PRIVATE LIMITED
4	00029	AKANSHA MINERALS PRIVATE LIMITED
5	00077	J K (D) COPIERS PRIVATE LIMITED
6	21112	KRISHNA SYNERGY PRIVATE LIMITED
7	00191	DHAIRYA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
8	01040	JAGANNATH INFRACON PRIVATE LIMITED
9	21637	DIVYA UNISOFT SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
10	20672	Agrawal Realbuild India Private Limited

Sd/- ILLEGIBLE
Registrar of Companies -cum-
Official Liquidator, Chhattisgarh

In the matter of companies Act 1956, and of the following Companies

Shillong-793001, the 26th February 2016

No. ROC/SH/560(5)/2016/22—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of below mentioned Companies has this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved:—

SL NO.	CIN NUMBER	NAME OF COMPANY
1.	U70109AS2007PTC008361	BAJRANG INFRATECH PRIVATE LIMITED
2.	U70100AS2007PTC008363	MAHESHWARI REALTECH PRIVATE LIMITED
3.	U45400AS2007PTC008403	NARAYAN INFRATECH PRIVATE LIMITED
4.	U70101AS2007PTC008402	SARASWATI INFRATECH PRIVATE LIMITED
5	U70101AS2007PTC008401	VISHNU LANDCON PRIVATE LIMITED
6	U70101AS2007PTC008400	MAHESHWAR LANDCON PRIVATE LIMITED

SL NO.	CIN NUMBER	NAME OF COMPANY
7	U63090AS2010PTC010037	ADESAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
8	U52399AS2014PTC011774	Evangeline apparels private limited

P. S. SYIEM
Deputy Registrar of Companies
Shillong

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in